

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 17] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 28—मई 04, 2018 (वैशाख 8, 1940)

No. 17] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 28—MAY 04, 2018 (VAISAKHA 8, 1940)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय

(कार्यालय कंपनी रजिस्ट्रार गोवा, दमन एवं दीव)

प्रारूप संख्या एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के
नियम 9 के अनुसरण में]

संदर्भ

कंपनी अधिनियम, 2013 तथा मै. ऑडी कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड, सीआईएन U70101GA2005PTCC004283 के मामले में।
गोवा, 5 अप्रैल, 2018

यह इस कार्यालय के नोटिस क्रमांक आरओसी गोवा/248(2)/010218/2018 दिनांक 31/01/2018 आवेदन (फॉर्म एसटीके 2) दिनांक 08/01/2018 एसआरएन जी 72917198 तथा दिनांक निरंक को एसटीके 5 में जारी किए गए नोटिस के संबंध में है। एतद्वारा यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) के अनुसरण में मै. ऑडी कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन अप्रैल में कंपनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कंपनी विघटित हो गई है।

शत्रुघ्न चौहान
उप कंपनी रजिस्ट्रार
गोवा, दमन एवं दीव

प्रारूप संख्या एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में]

संदर्भ:

कंपनी अधिनियम, 2013 तथा मै. डुन्न ट्रेवल एण्ड लीझर प्राइवेट लिमिटेड, सीआईएन U63040GA2010PTCC006285 के मामले में।

यह इस कार्यालय के नोटिस क्रमांक आरओसी गोवा/248(2)/011611/2018 दिनांक 23/02/2018 आवेदन (फार्म एसटीके 2) दिनांक 12/02/2018 एसआरएन जी 76419324 तथा दिनांक निरंक को एसटीके 5 में जारी किए गए नोटिस के संबंध में है। एतद्वारा यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) के अनुसरण में मै. डुन्न ट्रेवल एण्ड लीझर प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन अप्रैल में कंपनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कंपनी विघटित हो गई है।

शत्रुघ्न चौहान

उप कंपनी रजिस्ट्रार

गोवा, दमन एवं दीव

प्रारूप संख्या एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में]

संदर्भ:

कंपनी अधिनियम, 2013 तथा मै. इवेन्चर्स (गोवा) प्राइवेट लिमिटेड, सीआईएन U74999GA2015PTC007576 के मामले में।

यह इस कार्यालय के नोटिस क्रमांक आरओसी गोवा/248(2)/010219/2017 दिनांक 31/01/2018 आवेदन (फार्म एसटीके 2) दिनांक 07/12/2017 एसआरएन जी 69147387 तथा दिनांक निरंक को एसटीके 5 में जारी किए गए नोटिस के संबंध में है। एतद्वारा यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) के अनुसरण में मै. इवेन्चर्स (गोवा) प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन अप्रैल में कंपनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कंपनी विघटित हो गई है।

शत्रुघ्न चौहान

उप कंपनी रजिस्ट्रार

गोवा, दमन एवं दीव

प्रारूप संख्या एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में]

संदर्भ:

कंपनी अधिनियम, 2013 तथा मै. बोनिटो कैब्स एण्ड एडवर्टाइजिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सीआईएन U74900GA2011PTC006589 के मामले में।

यह इस कार्यालय के नोटिस क्रमांक आरओसी गोवा/248(2)/011612/2018 दिनांक 23/02/2018 आवेदन (फार्म एसटीके 2) दिनांक 23/02/2018 एसआरएन जी 77484582 तथा दिनांक निरंक को एसटीके 5 में जारी किए गए नोटिस के संबंध में है। एतद्वारा यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) के अनुसरण में मै. बोनिटो कैब्स एण्ड एडवर्टाइजिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन अप्रैल में कंपनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कंपनी विघटित हो गई है।

शत्रुघ्न चौहान
उप कंपनी रजिस्ट्रार
गोवा, दमन एवं दीव

प्रारूप संख्या एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में]

संदर्भ:

कंपनी अधिनियम, 2013 तथा मै. विस्तार व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड, सीआईएन U50401GA2004PTCC003507 के मामले में।

यह इस कार्यालय के नोटिस क्रमांक आरओसी गोवा/248(2)/011613/2018 दिनांक 23/02/2018 आवेदन (फार्म एसटीके 2) दिनांक 23/02/2018 एसआरएन जी 77494144 तथा दिनांक निरंक को एसटीके 5 में जारी किए गए नोटिस के संबंध में है। एतद्वारा यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) के अनुसरण में मै. विस्तार व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन अप्रैल में कंपनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कंपनी विघटित हो गई है।

शत्रुघ्न चौहान
उप कंपनी रजिस्ट्रार
गोवा, दमन एवं दीव

नोटिस धारा 37 (1) एम.सी.ए./कं. रजि. गोवा/सी.दे.भ-नियम 37/2018/05682

सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 एवं मै. कॉकण वेस्ट मैनेजमेंट एल.एल.पी एल.एल.पी प.स AAF-2664 के विषय में

गोवा, 9 अप्रैल, 2018

सीमित देयता भागीदारी नियम, 2009 के नियम 37 (1) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि प्रतिकूल कारण दर्शित न किए जाने की अवस्था में इस तारीख से तीस दिनों की समाप्ति के उपरांत मै. कॉकण वेस्ट मैनेजमेंट एल.एल.पी का नाम रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा उक्त एल.एल.पी विघटित कर दी जाएगी।

विष्णु पांडुरंग काटकर
कंपनी रजिस्ट्रार
रजिस्ट्रार, गोवा

सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 एवं मै. टौक 4 इंडिया एल.एल.पी एल.एल.पी प.स AAI-2406 के विषय में

सीमित देयता भागीदारी नियम, 2009 के नियम 37 (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मै. टौक 4 इंडिया एल.एल.पी का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त एल.एल.पी विघटित हो गई है।

विष्णु पांडुरंग काटकर
कंपनी रजिस्ट्रार
रजिस्ट्रार, गोवा

सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 एवं मै. कुरियन घोटगे एक्सपीरियन्सिस एल.एल.पी एल.एल.पी प.स AAB-8900 के विषय में

सीमित देयता भागीदारी नियम, 2009 के नियम 37 (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मै. कुरियन घोटगे एक्सपीरियन्सिस एल.एल.पी का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त एल.एल.पी विघटित हो गई है।

विष्णु पांडुरंग काटकर
कंपनी रजिस्ट्रार
रजिस्ट्रार, गोवा

सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 एवं मै. फ्रैन्ज़ कॉनसार्टियम वैन्चर एल.एल.पी एल.एल.पी प.स AAB-8520 के विषय में

सीमित देयता भागीदारी नियम, 2009 के नियम 37 (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मै. फ्रैन्ज़ कॉनसार्टियम वैन्चर एल.एल.पी का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त एल.एल.पी विघटित हो गई है।

विष्णु पांडुरंग काटकर
कंपनी रजिस्ट्रार
रजिस्ट्रार, गोवा

सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 एवं मै. ऐथर विजुअल स्टोरीटैलिंग लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एल.एल.पी प.स AAB-9284 के विषय में

सीमित देयता भागीदारी नियम, 2009 के नियम 37 (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मै. ऐथर विजुअल स्टोरीटैलिंग लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त एल.एल.पी विघटित हो गई है।

विष्णु पांडुरंग काटकर
कंपनी रजिस्ट्रार
रजिस्ट्रार, गोवा

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

(Office of the Registrar of Companies)

FORM No. STK - 7

NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

Reference:

In the matter of Companies Act, 2013 and of M/s AUDI CONSTRUCTIONS COMPANY PRIVATE LIMITED, CIN U70101GA2005PTC004283.

Goa, the 5th April, 2018

This is with respect to this Office's Notice No. ROCGoa/248(2)/010218/2018 dated 31.01.2018 application (Form STK 2) dated 08.01.2018 vide SRN G72917198 and notice in form STK 5 issued on dated NA . Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of M/s AUDI CONSTRUCTIONS COMPANY PRIVATE LIMITED has this day of April been struck off the register of companies and the said Company is dissolved.

SHATRUGHAN CHAUHAN

Dy. Registrar of Companies

FORM No. STK - 7

NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

Reference:

In the matter of Companies Act, 2013 and of M/s DUNN TRAVEL AND LEISURE PRIVATE LIMITED, CIN U63040GA2010PTC006285.

This is with respect to this Office's Notice No. ROCGoa/248(2)/011611/2018 dated 23.02.2018 application (Form STK 2) dated 12.02.2018 vide SRN G76419324 and notice in form STK 5 issued on dated NA . Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of M/s DUNN TRAVEL AND LEISURE PRIVATE LIMITED has this day of April been struck off the register of companies and the said Company is dissolved.

SHATRUGHAN CHAUHAN

Dy. Registrar of Companies

FORM No. STK - 7

NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

Reference:

In the matter of Companies Act, 2013 and of M/s EVENTURES (GOA) PRIVATE LIMITED, CIN U74999GA2015PTC007576.

This is with respect to this Office's Notice No. ROCGoa/248(2)/010219/2017 dated 31.01.2018 application (Form STK 2) dated 07.12.2017 vide SRN G69147387 and notice in form STK 5 issued on dated NA . Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of M/s EVENTURES (GOA) PRIVATE LIMITED has this day of April been struck off the register of companies and the said Company is dissolved.

SHATRUGHAN CHAUHAN

Dy. Registrar of Companies

FORM No. STK - 7

NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

Reference:

In the matter of Companies Act, 2013 and of M/s BONITO CABS AND ADVERTISING INDIA PRIVATE LIMITED, CIN U74900GA2011PTC006589.

This is with respect to this Office's Notice No. ROCGoa/248(2)/011612/2018 dated 23.02.2018 application (Form STK 2) dated 23.02.2018 vide SRN G77484582 and notice in form STK 5 issued on dated NA . Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of M/s BONITO CABS AND ADVERTISING INDIA PRIVATE LIMITED has this day of April been struck off the register of companies and the said Company is dissolved.

SHATRUGHAN CHAUHAN

Dy. Registrar of Companies

FORM No. STK - 7

NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

Reference:

In the matter of Companies Act, 2013 and of M/s VISTAR WHEELS PRIVATE LIMITED, CIN U50401GA2004PTC003507.

This is with respect to this Office's Notice No. ROCGoa/248(2)/011613/2018 dated 23.02.2018 application (Form STK 2) dated 23.02.2018 vide SRN G77494144 and notice in form STK 5 issued on dated NA . Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of M/s VISTAR WHEELS PRIVATE LIMITED has this day of April been struck off the register of companies and the said Company is dissolved.

SHATRUGHAN CHAUHAN

Dy. Registrar of Companies

Notice under rule 37(1) MCA/RoC - Goa/LLP - Rule37/2018/05682

In the matter of the LLP Act, 2008 and of M/s KONKAN WASTE MANAGEMENT LLP LLPIN AAF-2664

Goa, the 9th April, 2018

Notice is hereby given pursuant to Rule 37(1) of the LLP Rules, 2009 that at the expiration of thirty days from the date hereof, the name of the M/s KONKAN WASTE MANAGEMENT LLP unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said LLP will be dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of companies
Registrar, Goa

In the matter of the LLP Act, 2008 and of M/s. TOC 4 INDIA LLP with LLPIN AAI-2406.

Notice is hereby given pursuant to Rule 37(3) of the LLP Rules, 2009 that the name of TOC 4 INDIA LLP has this day been struck off from the Register and the said LLP is dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of companies
Registrar, Goa

In the matter of the LLP Act, 2008 and of M/s. KURIAN GHOTING EXPERIENCES LLP with LLPIN AAB-8900

Notice is hereby given pursuant to Rule 37(3) of the LLP Rules, 2009 that the name of KURIAN GHOTING EXPERIENCES LLP has this day been struck off from the Register and the said LLP is dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of companies
Registrar, Goa

In the matter of the LLP Act, 2008 and of M/s. FRENZ CONSORTIUM VENTURE LLP with LLPIN AAB-8520.

Notice is hereby given pursuant to Rule 37(3) of the LLP Rules, 2009 that the name of FRENZ CONSORTIUM VENTURE LLP has this day been struck off from the Register and the said LLP is dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of companies
Registrar, Goa

In the matter of the LLP Act, 2008 and of M/s. AETHER VISUAL STORYTELLING LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP with LLPIN AAB-9284.

Notice is hereby given pursuant to Rule 37(3) of the LLP Rules, 2009 that the name of AETHER VISUAL STORYTELLING LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP has this day been struck off from the Register and the said LLP is dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of companies
Registrar, Goa

RAKESH
SUKUL

Digitally signed by
RAKESH SUKUL
Date: 2018.04.28 12:30:18
+05'30'